



पार्किंग, पार्क और प्लेग्राउंड: सिटी ने COVID-19 के दौरान निवासियों को बाइ-लॉ याद दिलाए

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (14 मई, 2020) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, निवासियों को याद दिलाती है कि वह COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) महामारी के दौरान और पूरे साल के लिए, निम्नलिखित बाइ-लॉ को महत्वपूर्ण समझें। बाइ-लॉ, सुरक्षित और साफ-सुथरे शहर को कायम रखने में मदद के लिए लागू किए गए हैं। हर ब्रैम्पटन निवासी इन मानकों (स्टैंडर्ड्स) को कायम रखने में भूमिका निभा सकता है।

नियमों का पालन न करने वाले व्यक्तियों पर, [ब्रैम्पटन COVID-19 एमरजेंसी मेजर्स बाइ-लॉ \(Brampton COVID-19 Emergency Measures By-law\)](#) के अंतर्गत, उल्लंघन के हर अपराध के लिए कम से कम \$500 का और अधिकतम \$100,000 तक का जुर्माना, या प्रांतीय एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड सिविल प्रोटेक्शन एक्ट (ई.एम.सी.पी.ए.) (Emergency Management and Civil Protection Act) (EMCPA) के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने सिटी के अन्य महत्वपूर्ण बाइ-लॉ के अंतर्गत भी जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि वे उनका पालन नहीं करते हैं।

वाहनों की पार्किंग सुरक्षित तरीके से करें

सिटी के [ट्रैफिक बाइ-लॉ 93-93 \(Traffic By-Law 93-93\)](#) के मुताबिक, रास्ते में पगडंडी के किसी भी हिस्से पर वाहन की इस तरह से पार्किंग नहीं की जा सकती कि उनसे पगडंडियों में रुकावट आए। ऐसा करने से पगडंडियों का उपयोग करने वालों के खतरा पैदा होता है। ये स्ट्रोलर्स (बच्चों को घुमाने वाली गाड़ियां), व्हीलचेयर्स और पैदल चलने वालों के लिए भी विघ्न डालता है। बाइ-लॉ के अंतर्गत, वाहनों को इस तरह से पार्किंग करने की भी अनुमति नहीं है, जिससे वे ट्रैफिक को रोकते हों। पार्किंग किया गया कोई भी वाहन, सड़क की तरफ बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए।

यदि जरूरी हो, तो निवासी बुलेवार्ड के पटरी वाले हिस्से के किनारे के साथ-साथ वाहन पार्क कर सकते हैं। जब वे इस तरीके से वाहन की पार्किंग करें, तो वाहन सड़क या पगडंडी की तरफ बाहर की ओर नहीं निकले होने चाहिए।

इस समय, सिटी के स्वामित्व वाले सारे पार्किंग लॉट्स, अगले नोटिस तक जनता के लिए बंद हैं। इसलिए सिटी ने स्वास्थ्य, सुरक्षा और एमरजेंसी सेवाओं संबंधी रास्तों को छोड़कर, स्ट्रीट पर पार्किंग करने पर लगाए गए कानून के अमल को, अस्थायी तौर पर स्थगित किया है, इन रास्तों में शामिल हैं: रोके गए रास्ते और फायर हाइड्रैंट्स, रोकी हुई पगडंडियां, सड़क पर रुकावटें, फायर रूट और यह सुनिश्चित करना कि एमरजेंसी वाहनों के गुजरने के लिए रास्ता है।

पार्कों और ट्रेल्स का उपयोग

हालांकि सिटी के पार्क बंद हैं, इसलिए निवासियों को पार्कों की पगडंडियों पर सैर करने और ट्रेल्स का उपयोग करने की अनुमति है। आउटडोर रेक्रिएशनल फैसिलिटीज का उपयोग करने पर अभी भी पाबंदी है, इनमें शामिल हैं:

- प्लेग्राउंड और पार्कों में अन्य स्थान;



- पिकनिक वाले स्थान, बेंच या शेल्टर;
- सभी आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज और आउटडोर फिटनेस उपकरण, जिनमें शामिल हैं स्पोर्ट्स फील्ड्स, बास्केटबाल और टेनिस कोर्ट्स;
- रेक्रिएशन सेंटर और आसपास के स्थान; और
- पार्किंग लॉट्स।

निवासियों को यह भी याद दिलाया जाता है कि सिटी के किसी भी पार्क में बिना जंजीर बांधे कुत्तों के जाने की अनुमति नहीं है। इस समय, बिना जंजीर बांधे कुत्तों के लिए पार्क (डॉग पार्क) बंद हैं।

शारीरिक दूरी

जब निवासी पगडंडियों, ट्रेल्स, रास्तों या अन्य सार्वजनिक जगहों पर बाहर जाएं, तो उनके लिए हमेशा दूसरों (जो उनके घर में नहीं रहते हैं) से 2.0 मीटर की दूरी कायम रखना जरूरी है। ई.एम.पी.सी.ए. (EMPCA) के अंतर्गत, पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी पाबंदी है।

निवासियों से अनुरोध है कि यदि वे पांच से अधिक लोगों को एक साथ देखें, तो इसकी रिपोर्ट करने के लिए 311 पर फोन करें।

COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए, समुदाय को सहयोग करने के सिटी के प्रयासों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं या @CityBrampton को Twitter, Facebook और Instagram पर फॉलो करें। सिटी के बाइ-लॉ के बारे में अधिक जानकारी के लिए, www.brampton.ca पर जाएं।

-30-

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca